



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 81 राँची, मंगलवार, 29 जनवरी, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

16 जनवरी, 2019

विषय :राज्य योजनान्तर्गत कोडरमा नगर पंचायत की ₹ 60,12,83,000/- (साठ करोड़ बारह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-5/जलापूर्ति/कोडरमा/07/2016/न०वि०आ०-244,--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में कोडरमा नगर पंचायत के आमजनों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. प्रस्तावित योजना कोडरमा शहरी जलापूर्ति का पुनर्गठित स्वरूप है, जो वर्ष 1953 में चालू (Commissioned) किया गया था। यह योजना, नगर पंचायत, कोडरमा की वर्तमान जनसंख्या 24,633 (वर्ष 2011) को आधार मानते हुए तैयार की गई है। इस योजना का आधार वर्ष 2018 होगा,

जो अगले 30 वर्ष अर्थात् 2048 की संभावित जनसंख्या 65,417 की मांग को पूरा करेगी। इस योजना की कुल क्षमता 11.874 MLD intake water के अनुरूप डिजाईन की गई है।

3. कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी M/s MaRs Planning and Engineering Services Pvt. Ltd., Kolkata द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, (DPR) प्राक्कलित राशि ₹ 60,12,83,000/- (साठ करोड़ बारह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्नवत तकनीकी तकनीकी अनुमोदन है :-

Abstract of Cost (Koderma Water Supply Scheme)

Total Project Cost-I		
Sl. No.	Cost Estimate	Amount in Rs.
1	Intake Well	5383175.00
2	Gangway	4668373.00
3	Coffer Dam	4156139.00
4	E&M at Intake Well	4519205.00
5	E&M at WTP	11702436.00
6	E&M at Existing WTP	1594195.00
7	Water Treatment Plant	28205356.00
8	Sludge Setting Tank	8663864.00
9	Raw Water Rising Main	6795835.00
10	Clear Water Rising Main	160662205.00
11	Elevated Service Reservoir	20878541.00
12	Distribution System	143702920.00
13	Fire Hydrant	422910.00
14	Staff Quarter	1220277.00
15	Boundary Wall	3496765.00
16	Approach Road	844222.00
17	NH Crossing	6014236.00
18	Railway Crossing	8314666.00
19	House Connection	29545722.00
20	SCADA System	9000000.00
	Cost for Water Supply Scheme	459791043.00
	(A) Say Rs. -	459791043.00
21	Add GST @ 12% (B)	55174925.16
	Cost for Water Supply Scheme including GST (A+B)	514965968.16
22	Labour Cess @1%(C)	5149659.68
	Total Cost of Water Supply Scheme = A + B+C	520115627.84
O&M and Other CHARGES (JUIDCO, DPR PREPARATION etc)-II		
1	JUIDCO Charges @07% on cost upto 10 Crore of (C)	24926696.00
	JUIDCO Charges @05% on extra cost of (C) above 10 Crore upto 100 Crore	
2	DPR Preparation Charges and Construction Supervision Charges @ (1.5%+1.5%=3.0%) of (C)	15448979.04
3	Operation and Maintenance Charges (2 Yrs)	36060534.00
	Add GST @ 12%	4327264.08
4	Labour Cess on O&M @ 1%	403877.98
5	Total	601282978.94
	Say Rs.- Sixty Crore Twelve Lakh Eighty Three Thousand Rupees only.	60,12,83,000.00

4. उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में “शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ” मद अंतर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जाएगा:-

मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष- 80-सामान्य-लघु शीर्ष-191-नगर निगमों को सहायता-उपशीर्ष-94- शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-48S221780191940679 (पृ०-37)

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार से की जायगी, जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि सर्वश्री जुडको लि० के पी०एल० खाते में हस्तान्तरित किया जायगा एवं सर्वश्री जुडको लि० द्वारा उक्त राशि पी०एल० खाते में संघारित करते हुए नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
6. योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची अंतर्गत स्थापित सर्वश्री जुडको लि०, राँची द्वारा खुली एवं प्रतिस्पर्द्धी निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जाएगा।
7. उपर्युक्त क्रम में सर्वश्री जुडको लि०, राँची को नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-6821, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के आलोक में अनुमान्य Centage का भुगतान किया जायगा।
8. योजना का कार्यान्वयन विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।
9. माननीय मंत्री द्वारा उक्त योजना का अनुमोदित किया गया है।
10. कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजना को प्राधिकृत समिति की दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।
11. कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजना को मंत्रिपरिषद की दिनांक 04 जनवरी, 2019 की बैठक में मद संख्या-6 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।
